

# नकली शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा

हिन्दुस्तान टीम,मोतिहारी | Published By: Newswrap

• Last updated: Fri, 26 Jun 2020 11:24 PM

उत्पाद पुलिस ने शुक्रवार को तुरकौलिया थाने के बसवरिया टोला गांव में छापेमारी कर एक डुप्लीकेट देसी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया। हालांकि गांव में पुलिस टीम के प्रवेश करते ही शराब धंधेबाज घर छोड़कर फरार हो गया।

उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश ने बताया कि सूचना पर शराब धंधेबाज दिलीप साह के घर छापेमारी कर डुप्लीकेट देसी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान उसके घर से एक ऑटोमैटिक पाउच पैकिंग मशीन, गैस सिलेंडर, 20 किलोग्राम रैपर, 70 लीटर ्रिपरट व बीस पीस तैयार पाउच बरामद किया गया। शराब धंधेबाज दिलीप साह पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में इंस्पेक्टर प्रकाश चन्द्र, दारोगा मनीष सर्राफ, कांस्टेबल श्वेता कुमारी, राकेश कुमार, उत्पाद पुलिस बल व सैप बल के जवान शामिल थे।

देसी शराब भठ्ठी संचालन में सात पर केस

मोतिहारी। चिरैया थाना के मोहददीपुर सरेह में देसी चुलाई शराब भठ्ठी संचालन मामले में उत्पाद पुलिस ने चिन्हित सात धंधेबाजों पर एफआईआर दर्ज किया है। बुधवार को उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर छह देसी चुलाई शराब भठ्ठियों को ध्वस्त किया। छापेमारी के दौरान बरामद करीब नौ हजार लीटर अर्धनिर्मित चुलाई शराब व शराब बनाने के उपकरण को उत्पाद पुलिस ने मौके पर ही विनष्ट कर दिया। सिकरहना अनुमंडल के उत्पाद इंस्पेक्टर विजय चौधरी ने बताया कि मोहददीपुर सरेह में शराब भठ्ठी संचालन मामले में लालबाबू महतो, छठू राय, होरिल राय, प्रभात राय, मुक्ति राय व धरम राय पर फरार अभियोग दर्ज किया गया है। फरार शराब धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी टीम में उनके साथ दारोगा मिथिलेश कुमार, मोबाइल दस्ता प्रभारी कुंजबिहारी सिंह, उत्पाद सिपाही ओमप्रकाश मांझी आदि थे। मो.प्र.

Source: <https://www.livehindustan.com/bihar/motihari/story-fake-liquor-factory-revealed-3308633.html>